



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2011/पौष 24, 1932
No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2011/PAUSA 24, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

का.आ. 79(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1594(अ), तारीख 6 जुलाई, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिले में रामगढ़ बाईपास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 60.00 कि.मी. से 96.00 कि.मी. (हजारीबाग-रांची सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 7-8-2010 को "हिन्दुस्तान" और तारीख 13-8-2010 को "द टेलिग्राफ" में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 33 के 60.000 कि.मी.से 96.000 कि.मी. तक रामगढ़ जिला अन्तर्गत (हजारीबाग-रौंही सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली रैयती भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित संक्षिप्त विवरणी।

क्र.सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या प्लॉट नं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भू-स्वामी का नाम/हित सम्बद्ध व्यक्ति
							(वर्ग मी० में)	(एकड़ में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1.	रामगढ़	रामगढ़	(1) हुहुया	8	निजी	टॉड III	0.06	242.82	मुगर कुर्मी, बाल्कू कुर्मी पिता सहेन्द्र कुर्मी, झगर कुर्मी
				9	निजी	टॉड III	0.54	2185.35	बाबुलाल महतो, दुबराज महतो, जीवा महतो, लखन महतो, मिदु महतो, इश्वर महतो पिता गुदार महतो
				45	निजी	टॉड III	0.04	161.88	"
				27	निजी	धान II	0.02	80.94	बकासत
				41	निजी	धान I	0.08	323.76	बकासत अज्ञात
				32	निजी	खतीयान फटा है	0.08	323.76	सुरेश महतो पिता स्व मधु महतो
				38	निजी	खतीयान फटा है	0.09	364.23	बकासत
				113		खतीयान फटा है	0.01	40.47	बकासत
				44	निजी	टॉड III	0.12	485.63	सहदेव महतो, मुखलाल, विषणु महतो, दशरथ महतो, भुनेश्वर महतो, सुरेन्द्र, महेन्द्र, संजय
				47	निजी	टॉड III	0.07	283.29	"
				75	निजी	टॉड III	0.04	161.88	"
				46	निजी	टॉड III	0.06	242.82	गंदोरी महतो पिता विषणु महतो
				50	निजी	परती गढ़ा	0.21	849.86	मना महतो, महतो, तानु महतो पिता उदय महतो, गालू महतो पिता नन्दू महतो, बिना महतो पिता गणेश महतो
				51	निजी	टॉड III	0.19	768.92	"
				52	निजी	परती कदीम	0.05	202.35	"
				53	निजी	परती कदीम	0.16	647.51	"
				58	निजी	धान I	0.03	121.41	"
				60	निजी	धान I	0.16	647.51	"
				62		धान I	0.10	404.69	"
				65	निजी	धान III	0.03	121.41	"
				68	निजी	टॉड III	0.11	445.16	"
				439	निजी	धान II	0.37	1497.37	"
				440	निजी	धान II	0.15	607.04	"
				447	निजी	धान II	0.51	2063.94	"
				59	निजी	धान I	0.1	404.69	बोना महतो पिता गणेश महतो
				61	निजी	धान I	0.12	485.63	"
				64	निजी	धान II	0.04	161.88	"
				2123		खतीयान फटा है	0.05	202.35	"

			72	निजी	धान II	0.14	566.57	राधा महतो, रजित महतो पिता कैला महतो, जीवलाल देवलाल महतो पिता गेन्दा महतो, रोजा महतो, मानबोध महतो पिता जितवाहन महतो
			73	निजी	धान II	0.12	485.63	"
			96	निजी	धान II	0.11	445.16	सीतवा महतो पिता दसाई महतो
			100	निजी	धान II	0.02	80.94	"
			286	निजी	धान II	0.04	161.88	"
			97	निजी	धान I	0.07	283.29	धनश्याम, नन्दलाल पिता श्यामलाल, रामलाल पिता अलका महतो, आलसो, बिलासो, राधा, पाथो पिता लुम्बा महतो, महेन्द्र पिता लाकू, सैनाथ पिता तुल्सी, नन्दो महतो, धनेश्वर, महेश, बन्धुलाल पिता मुदूक धारी, विनोद, सदिप, प्रदिप पिता सोना राम
			121	निजी	धान I	0.18	728.45	"
			240	निजी	धान I	0.05	202.35	"
			257		खतीयान फटा है	0.25	1011.74	"
			451	निजी	धान I	0.14	566.57	"
			98	निजी	धान I	0.08	323.76	शिवू महतो, कारू महतो, पाचू महतो पिता कितक महतो, सुखदेव पिता बाल्कू महतो, कमलेश पिता अर्जुन महतो, मुकेश महतो पिता चुगल महतो
			99	निजी	धान II	0.02	80.94	"
			122	निजी	धान II	0.13	526.10	"
			255	निजी	धान II	0.02	80.94	"
			256	निजी	धान II	0.01	40.47	"
			101	निजी	धान II	0.11	445.16	विनोद सदिप, प्रदिप पिता सोनाराम महतो
			102	निजी	धान II	0.08	323.76	इश्वर मुण्डा, विशेश्वर मुण्डा, काशीनाथ मुण्डा पिता अहलाद मुण्डा
			108	निजी	धान II	0.41	1659.25	"
			103	निजी	धान II	0.02	80.94	सैता पाहन, गिरधर पाहन, कुण्डा पाहन, रेनू पाहन पिता बलराम पाहन
			119	निजी	धान II	0.07	283.29	"
			106	निजी	धान II	0.24	971.27	कातीक महतो, माती महतो, दशरथ महतो पिता बाल्कू महतो, टेकलाल महतो पिता जगदीश महतो बारी महतो, मोहन महतो पिता निमान महतो
			259	निजी	धान II	0.14	566.57	"
			107	निजी	धान II	0.34	1375.96	विनोद महतो, कुलदीप महतो पिता लालधारी, गिरधारी महतो, तिलेश्वर महतो, दिनेश महतो पिता बालगोविन्द महतो

				258	निजी	खतीयान फटा है	0.11	445.16	"
				109	निजी	धान II	0.34	1375.96	विनोद संदिप, प्रदिप पिता सोनाराम महतो, महेश, बन्धुलाल पिता मदूकधारी महतो
				110	निजी	धान II	0.01	40.47	गोपाल बेदीया, लखन बेदीया पिता कार्तिक बेदीया, तारो देवी पिता माहरग बेदीया
				249		खतीयान फटा है	0.12	485.63	"
				251	निजी	धान II	0.07	283.29	"
				120	निजी	धान ८	0.46	1861.59	निर्मल, बिरबल, बालेश्वर महतो, राजेन्द्र, रमेश कालेश, कालेश्वर महतो, हदुलाल महतो, रामवृक्ष महतो, कारु, राजरु महतो, नामधारी, भेधनाथ, गंगा महतो
				239	निजी	धान II	0.01	40.47	"
				242	निजी	धान II	0.06	242.82	"
				241		खतीयान फटा है	0.69	2792.39	नेवलाल चौधरी, गिरधारी चौधरी, सोवालाल चौधरी
				316	निजी	धान II	0.76	3075.68	"
				427	निजी	धान II	0.28	1133.14	"
				245	निजी	धान ८	0.01	40.47	राधा महतो पिता कैला महतो, जीवलाल दयाल महतो पिता गेन्दा महतो
				246	निजी	धान ८	0.04	161.88	"
				450	निजी	धान II	0.04	161.88	"
				248	निजी	धान II	0.89	3601.78	जितमन बेदीया, प्रवीन बेदीया, अजीत बेदीया, जिबू बेदीया, खैरा बेदीया, बिरसाई बेदीया
				351	निजी	धान ८	0.09	364.23	"
				446	निजी	धान ८	0.45	1821.13	"
				253	निजी	धान II	0.12	485.63	जगल बेदीया, जयलाल बेदीया, सोहन पिता दसाई बेदीया, रंगलाल पिता मानया बेदीया
				254	निजी	धान II	0.07	283.29	अतवा बेदीया, गगु बेदीया पिता बसुराम बेदीया, रुपलाल बेदीया पिता धोबन बेदीया, पांडू बेदीया, चुल्हा बेदीया पिता बाल्या बेदीया, बसंत बेदीया पिता तिजन बेदीया
				260	निजी	धान II	0.18	728.45	घोरु साव, महावीर साव, लखन साव
				264	निजी	धान II	0.21	849.86	प्यारेलाल मुण्डा, मूधु मुण्डा
				273	निजी	धान II	0.14	566.57	"

				274	निजी	धान II	0.22	890.33	पुरन मुण्डा, चुरन, त्रिवेनी, रूपदेव, गोविन्द, हुसैनी, विशेश्वर असेश्वर, राजेश, सुनिल, शंकर, गोपी, फलचंद मुण्डा
				275	निजी	धान II	0.17	687.98	पुशनाथ महतो, बालेश्वर महतो, प्रसादी महतो, भुनेश्वर महतो
				346	निजी	धान ८	0.06	242.82	"
				420	निजी	धान II	0.04	161.88	"
				276	निजी	धान II	0.06	242.82	चुनीलाल महतो, झालू महतो, बिरजाम महतो, सावना महतो, नानका महतो, चन्दु महतो, तुलेश्वर महतो, तुल्सी महतो, डोगा महतो, हुकुमनाथ, बंसत महतो, उपेन्द्र खिरू महतो, बनोधी महतो, कैलाश, जयलाल, मधु महतो, धर्मेनाथ शिवचरण महतो
				277	निजी	धान II	0.04	161.88	"
				278	निजी	धान II	0.11	445.16	"
				280	निजी	धान II	0.12	485.63	"
				281	निजी	धान I	0.07	283.29	"
				282	निजी	परती कदीम	0.01	40.47	"
				315	निजी	धान II	0.09	364.23	"
				317	निजी	धान II	0.02	80.94	"
				422	निजी	धान II	0.17	687.98	"
				279		खतीयान फटा है	0.20	809.39	मोहन महतो, पानू महतो, राजनाथ महतो, उमा महतो, गहनू महतो, सुकर महतो, सुरेश महतो, प्रयाग महतो
				344	निजी	धान I	0.05	202.35	"
				423	निजी	धान II	0.05	202.35	"
				285	निजी	धान II	0.01	40.47	मुण्डा बेदीया, मिखमंगु बेदीया पिता भांगरा बेदीया, बुधवा पिता रामचन्द्र बेदीया
				348	निजी	धान I	0.03	121.41	"
				350	निजी	धान I	0.48	1942.53	"
				293	निजी	धान II	0.19	768.92	तुलोकी महतो, कार्तीक महतो, मती महतो, दशरथ महतो, टेकलाल महतो, बारी महतो, माहन महतो
				336		खतीयान फटा है	0.05	202.35	अनीता महतो पति इश्वरनाथ महतो
				352	निजी	धान I	1.26	5099.15	अहमद, अखतर, सुमानी, मो नसीम, मकबूल, अब्दूल लतीफ, मो कुर्बान, खलीलख महबूब, मूस्लीम, इदरीश, जमीर, गुलजार, यसीन, मुमताज, युनुस, हैदर, मौ कलीम, शादी हुसैन, मुडी, मियाजान, सदीक, इब्राहीम, हाकीम, खाजाबुदीन, नजरूल, इसमाईल, सूलैमान, मेवालाल चौधरी, गिरीधारी सेवालाल चौधरी
				253	निजी	धान II	0.52	2104.41	"

			359	निजी	धान II	0.01	40.47	अहमद, अली, सुमानी, मो नसीम, मकबूल, अब्दूल लतीफ, मो कुर्बान, खलील
			361	निजी	धान II	0.36	1456.90	"
			362	निजी	धान II	0.37	1497.37	अज्ञात
			368	निजी	धान II	0.12	485.63	जुठान महतो, मिखु महतो पिता साहुजू कुर्मी, शिवचरण कुर्मी बिरसा कुर्मी पिता अनहावा कुर्मी
			421	निजी	धान II	0.16	647.51	अज्ञात
			428	निजी	धान II	0.42	1699.72	रामू पाण्डेय, हरदयाल पाण्डेय, सीताराम पाण्डेय, गोकुल पाण्डेय, बक्कू पाण्डे पिता गोपला पाण्डेय, जय गोविन्द पाण्डेय, चारकू पाण्डेय पिता दिनदयाल पाण्डेय
			429	निजी	धान II	0.34	1375.96	खुगखुन गुण्डा, महावीर गुण्डा, दामोदर गुण्डा, दूदू पाहन, झगरू पुरेश कारू, कर्जू
			437	निजी	धान II	0.26	1052.21	शेख पचकोडी, शेख माहमादी पिता शेख जैनूल
			441	निजी	धान II	0.14	566.57	कोका बेदीया पिता मनबोध बेदीया, बासूआ, लहमान, केसना बेदीया पिता साधु बेदीया
			444	निजी	धान II	0.18	728.45	काशीनाथ महतो, सायनाथ महतो, सुमित्रा देवी पति विरेन्द्र कुमार निलम देवी पति कामेश्वर कुमार जयती देवी पति ओम प्रकाश तेजू एवं अन्य सामी महतो, रूपलाल लखन, पोखलाल, माकी, बालदेव, भिमनाम चौधरी
			445	निजी	धान II	0.39	1578.31	"
					कुल	18.30	74059.09	
		(2) कोथार	7	निजी	धान II	0.18	728.45	सोनाराम महतो, भुखलाल कुर्मी, सुखलाल कुर्मी पिता खेतन कुर्मी सोहरी कुर्मी भगुर कुर्मी
			8	निजी	खतीयान फटा है	0.16	647.51	अखला कर्मी पिता कारू कुर्मी
			12	निजी	धान II	0.07	283.29	लखीया कुर्मी एवं अन्य पिता सुकर कुर्मी, गुग्ना कुर्मी एवं अन्य पिता रघु अहलाद कुर्मी, हरख कुर्मी पिता स्व शोधन कुर्मी बानुआ कुर्मी एवं अन्य पिता जुबार कुर्मी
			13	निजी	धान II	0.07	283.29	"
			14	निजी	खतीयान फटा है	0.08	323.76	अखला कर्मी पिता कारू कुर्मी
			15	निजी	खतीयान फटा है	0.01	40.47	रामनाथ महतो, दासी महतो, काशी महतो पिता लक्षु महतो, दयाल महतो, निर्मल महतो पिता भखु महतो
			21	निजी	धान II	0.24	971.27	कान्दू कुर्मी पिता बाके राम कुर्मी, अमृत कुर्मी, तुला कुर्मी पिता साधु कुर्मी

				22	निजी	खतीयान फटा है	0.26	1052.21	रूपलाल कुर्मी पिता सुखलाल कुर्मी
				23	निजी	धान II	0.18	728.45	अज्ञात
				24	निजी	धान II	0.15	607.04	अज्ञात
				26	निजी	खतीयान फटा है	0.29	1173.61	महंगू कुर्मी एवं अन्य
				71	निजी	धान II	0.08	323.76	परना कुर्मी, बुद्ध कुर्मी पिता सनीका कुर्मी, शिबु कुर्मी पिता सोमर कुर्मी, उद्ययाना कुर्मी, लातुआ कुर्मी, गन्दोरीया कुर्मी पिता चमार कुर्मी
					निजी		0.04	161.88	सुरेन महतो पिता श्री माण्डु महतो
				72	निजी	धान II	0.01	40.47	परना कुर्मी, बुद्ध कुर्मी पिता सनीका कुर्मी, शिबु कुर्मी पिता सोमर कुर्मी, उद्ययाना कुर्मी, लातुआ कुर्मी, गन्दोरीया कुर्मी पिता चमार कुर्मी
				73	निजी	धान I	0.18	728.45	गिरधारी पाण्डेय, गोवरधन पाण्डेय, भारत पाण्डेय, रामचन्द्र पाण्डेय पिता लक्ष्म पाण्डेय
				74	निजी	धान I	0.15	607.04	"
				76	निजी	धान I	1.34	5422.91	बन्नु कुर्मी पिता सोहन कुर्मी मो बुचीया पति गुलीया कुर्मी
				77	निजी	धान II	0.07	283.29	"
				78	निजी	धान II	0.06	242.82	पानू महतो, कहनु महतो पिता साधु महतो, किनु महतो पिता वृजु महतो, झगरु महतो पिता गोवरधन महतो, माधा महतो पिता रैमा महतो, बुद्ध महतो पिता लक्षमण महतो, श्यामलाल महतो पिता भुखलाल महतो, बसीया महतो, भासीया महतो, तुलवा महतो, चैता महतो, महीता महतो पिता जाबू महतो, सोहराई महतो, मोहन महतो पिता काली महतो, वैजू महतो, विजय महतो पिता रामाम महतो
				79	निजी	धान II	0.14	566.57	"
				80	निजी	धान II	0.07	283.29	"
				83	निजी	धान II	0.02	80.94	कैली कुर्मी पिता सुखराम कुर्मी, खैता कुर्मी, जीतदाहन कुर्मी पिता सहीवार कुर्मी
				85	निजी	खतीयान फटा है	0.32	1295.02	चैता चमार पिता रामदास चमार

				90	निजी	खतीयान फटा है	0.32	1295.02	पानू महतो, कहनु महतो पिता साधु महतो, किनु महतो पिता वृजु महतो, झगरु महतो पिता गोवर्धन महतो, माधा महतो पिता रैमा महतो, बुद्ध महतो पिता लक्ष्मण महतो, श्यामलाल महतो पिता भुखलाल महतो, बसीया महतो, मासीया महतो, तुलवा महतो, चैता महतो, महीता महतो पिता जाबु महतो, सोहराई महतो, मोहन महतो पिता काली महतो, वैजू महतो, विजय महतो पिता रामाम महतो
				169	निजी	ज्दक प	0.03	121.41	कैली कुर्मी पिता सुखराम कुर्मी, खैता कुर्मी, जीतवाहन कुर्मी पिता सहीवार कुर्मी
				170	निजी	धान II	0.01	40.47	अज्ञात
				171	निजी	खतीयान फटा है	0.90	3642.25	मैना आरुदार बेदीया, मेन्ट बेदीया पिता कैली बेदीया, बिदेशीया बेदीया पिता धानी बेदीया
				202	निजी	धान II	1.32	5341.97	सोनू महतो पिता भगान महतो
				203	निजी	धान II	0.08	323.76	
				208	निजी	धान II	0.02	80.94	गिरधारी पाण्डेय, गोवर्धन पाण्डेय, भारत पाण्डेय, रामचन्द्र पाण्डेय पिता लक्षु पाण्डेय
				197	निजी	धान II	0.25	1011.74	रामदयाल कुर्मी, जिबु कुर्मी पिता बिगन कुर्मी बोधीया कुर्मी, सुधीया कुर्मी पिता शिबु कुर्मी
				215	निजी	खतीयान फटा है	0.05	202.35	अज्ञात
				217	निजी	खतीयान फटा है	0.17	687.98	अज्ञात
				218	निजी	खतीयान फटा है	0.56	2266.29	अज्ञात
				219	निजी	खतीयान फटा है	0.56	2266.29	अज्ञात
				220	निजी	खतीयान फटा है	0.12	485.63	अज्ञात
				221	निजी	धान II	0.88	3561.31	गिरधारी पाण्डेय, गोवर्धन पाण्डेय, भारत पाण्डेय, रामचन्द्र पाण्डेय पिता लक्षु पाण्डेय
				222	निजी	धान II	0.50	2023.47	
				223	निजी	धान II	0.36	1456.90	हान्दू गदैत मोहन गदैत
				224	निजी	धान II	0.09	364.23	सोनू महतो पिता भगान महतो
				225	निजी	खतीयान फटा है	0.52	2104.41	सम्भुनाथ गोस्वामी, प्राणुल गोस्वामी, सुधीर कुमार गोस्वामी पिता जातीन्द्र मोहन गोस्वामी, भोलानाथ गोस्वामी, सोमन्तो दास गोस्वामी पिता खगेंद्रा महतो गोस्वामी, विश्वनाथ गोस्वामी, गनपत गोस्वामी पिता महादाम गोस्वामी

				226	निजी	खतीयान फटा है	0.88	3561.31	विमल नन्द गोस्वामी, सचीनचन्द्रा गोस्वामी, दयानन्द गोस्वामी पिता भगवतीचन्द्र गोस्वामी जोड़ रामगढ़
				227	निजी	खतीयान फटा है	0.27	1092.68	"
				229	निजी	धान II	0.78	3156.62	पानू महतो, कहनु महतो पिता साधु महतो, किनु महतो पिता वृजु महतो, झगरु महतो पिता गोवरधन महतो, माधा महतो पिता रैमा महतो, बुद्ध महतो पिता लक्ष्मण महतो, श्यामलाल महतो पिता भुखलाल महतो, बसीया महतो, मासीया महतो, तुलवा महतो, चैता महतो, महीता महतो पिता जादू महतो, सोहराई महतो, मोहन महतो पिता काली महतो, वैजू महतो, विजया महतो पिता रामाम महतो
				230	निजी	धान II	0.16	647.51	"
				231	निजी	धान II	0.43	1740.19	रानू कुर्मी पिता सोहन कुर्मी मो बुचीया पति गुलीया कुर्मी
				234	निजी	धान II	0.01	40.47	अज्ञात
				246	निजी	खतीयान फटा है	0.02	80.94	विमल नन्द गोस्वामी, सचीनचन्द्रा गोस्वामी, दयानन्द गोस्वामी पिता भगवतीचन्द्र गोस्वामी जोड़ रामगढ़
				247	निजी	खतीयान फटा है	0.01	40.47	सम्भुनाथ गोस्वामी, प्राफुल गोस्वामी, सुधीर कुमार गोस्वामी पिता जोतीन्द्रा मोहन गोस्वामी, भोलानाथ गोस्वामी, सोमतो दास गोस्वामी पिता खागेन्द्रा महतो गोस्वामी, विश्वनाथ गोस्वामी, गनपत गोस्वामी पिता महादास गोस्वामी
				325	निजी	खतीयान फटा है	1.25	5058.68	अज्ञात
				326	निजी	धान II	0.99	4006.48	सुधन मुण्डा, दिनवा मुण्डा पिता केतार मुण्डा
				327	निजी	धान II	0.15	607.04	"
				329	निजी	खतीयान फटा है	0.18	728.45	अज्ञात
				339	निजी	खतीयान फटा है	0.13	526.10	अज्ञात
				343	निजी	खतीयान फटा है	0.01	40.47	अज्ञात
				344	निजी	खतीयान फटा है	0.13	526.10	महंगू कुर्मी, गोन्दाल कुर्मी, गुरदयाल कुर्मी, शिवदयाल कुर्मी पिता बुर्का कुर्मी
				345	निजी	धान II	0.12	485.63	ओरीया कुर्मी पिता कुरान कुर्मी, हारना कुर्मी, सोकना कुर्मी, सेवीनाथ कुर्मी, भिखलाल कुर्मी पिता धनीया कुर्मी
				346	निजी	धान II	0.19	768.92	"

			347	निजी	धान II	0.34	1375.96	सोनाराम महतो, भुखलाल कुर्मी, सुखलाल कुर्मी पिता खेतन कुर्मी सोहरी कुर्मी भखुर कुर्मी
			348	निजी	धान II	0.20	809.39	"
			349	निजी	धान II	0.52	2104.41	"
			350	निजी	धान II	0.05	202.35	"
			351	निजी	टॉड II	0.18	728.45	"
			361	निजी	टॉड II	1.12	4532.58	मैनी पोदार, भेन्दू बेदीया पिता कैली बेदीया, विदेशीया पिता धनी बेदीया
			362	निजी	धान II	0.19	768.92	"
			363	निजी	धान II	0.31	1254.55	"
			364	निजी	खतीयान फटा है	0.36	1456.90	गिरधारी पाण्डेय, गोवरधन पाण्डेय, भारत पाण्डेय, रामचन्द्र पाण्डेय पिता लक्षु पाण्डेय
			365	निजी	टॉड II	0.37	1497.37	मैनी पोदार, भेन्दू बेदीया पिता कैली बेदीया, विदेशीया पिता धनी बेदीया
			428	निजी	टॉड II	0.17	687.98	सोनाराम महतो, भुखलाल कुर्मी, सुखलाल कुर्मी पिता खेतन कुर्मी सोहरी कुर्मी भखुर कुर्मी
			429	निजी	खतीयान फटा है	0.26	1052.21	अज्ञात
			430	निजी	खतीयान फटा है	0.42	1698.72	अज्ञात
			464	निजी	धान III	0.25	1011.74	मैनी पोदार, भेन्दू बेदीया पिता कैली बेदीया, विदेशीया पिता धनी बेदीया
			465	निजी	खतीयान फटा है	0.45	1821.13	अज्ञात
			466	निजी	खतीयान फटा है	0.72	2913.80	अज्ञात
			467	निजी	खतीयान फटा है	0.19	768.92	अज्ञात
			468	निजी	धान II	0.11	445.16	अज्ञात
			469	निजी	धान I	0.10	404.69	अज्ञात
			470	निजी	टॉड	0.58	2347.23	बुद्धीया कुर्मी, जोधीया कुर्मी पिता सिवचरण कुर्मी, रामु कुर्मी चुदीकिया कुर्मी पिता साबी बंधु कुर्मी
			471	निजी	धान II	0.06	242.82	पानू महतो, कहनु महतो पिता साधु महतो, किनु महतो पिता वृजु महतो, झगरु महतो पिता गोवरधन महतो, माधा महतो पिता रैगा महतो, बुद्ध महतो पिता लक्षमण महतो, श्यामलाल महतो पिता भुखलाल महतो, बसीया महतो, मासीया महतो, तुलवा महतो, चैता महतो, महीता महतो पिता जाबू महतो, सोहराई महतो, मोहन महतो पिता काली महतो, वैजू महतो, विजय महतो पिता रामान महतो
			472	निजी	धान I	0.05	607.04	"

				473	निजी	धान ।	0.51	2063.94	"
				474	निजी	धान ।	0.25	1011.74	"
				475	निजी	धान ।	0.34	1375.96	कवारीया कुर्मी पिता पुरन कुर्मी हरना कुर्मी, सिकना कुर्मी, शिवनाथ कुर्मी, भिसलाल कुर्मी पिता धनीया कुर्मी
				476	निजी	धान ।।	0.01	40.47	पानू महतो, कहनु महतो पिता साधु महतो, किनु महतो पिता वृजु महतो, अगरु महतो पिता गोवर्धन महतो, माधा महतो पिता रैमा महतो, बुद्ध महतो पिता लक्ष्मण महतो, श्यामलाल महतो पिता भुखलाल महतो, बसीया महतो, मासीय महतो, तुलवा महतो, चैता महतो, महीता महतो पिता जाबू महतो, सोहराई महतो, मोहन महतो, पिता काली महतो, वैजू महतो, विजय महतो पिता रामाम महतो
				478	निजी	टॉड ।।	0.01	40.47	"
				491	निजी	धान ।	0.30	1214.08	ओबरीया कुर्मी पिता कुरान कुर्मी, हरना कुर्मी, सोखा कुर्मी, सवीनाथ कुर्मी, भिकल कुर्मी पिता धनीया कुर्मी
				492	निजी	धान ।	0.01	40.47	"
				545	निजी	टॉड ।।।	1.21	4896.80	मैनी पोदार, भेन्दू बेदीया पिता कैली बेदीया, बिदेशीया पिता धनी बेदीया
				546	निजी	टॉड ।।।	0.29	1173.61	सोनू महतो पिता भगान महतो
				547	निजी	टॉड ।।।	0.05	202.35	महंगू कुर्मी एवं अन्य
				553	निजी	धान ।।	0.12	485.63	"
				967	निजी	धान ।।	0.02	80.94	"
				974	निजी	खतीयान फटा है	0.37	1497.37	रामनाथ महतो, वासी महतो, काशी महतो पिता लखु महतो, दयाल महतो, निर्मल महतो पिता भखु महतो
				975	निजी	खतीयान फटा है	0.26	1052.21	मिखमंगा मुण्डा पिता सेतार मुण्डा
				976	निजी	धान ।	0.22	890.33	अखला कुर्मी पिता कारु कुर्मी
				977	निजी	धान ।	0.24	971.27	लखीया कुर्मी, नन्दू कुर्मी, जगरनाथ कुर्मी पिता सुकर कुर्मी, मुनवा कुर्मी, जीवधन कुर्मी, चिन्तामन कुर्मी पिता, अहलाद कुर्मी, हराक कुर्मी पिता, सोधन कुर्मी, लछुन कुर्मी पिता भुअर कुर्मी
				978	निजी	धान ।	0.18	728.45	"
				979	निजी	धान ।।	0.21	849.86	अखला कुर्मी पिता कारु कुर्मी
				980	निजी	धान ।।	0.30	1214.08	सोनाराम महतो, भुखलाल कुर्मी, सुखलाल कुर्मी पिता खेतन कुर्मी, सोहरी कुर्मी भखु कुर्मी
						Total	28.62	117319.05	

[फा. सं. भाराप्र/11013/01/एलए/2010/झार/2 गाँव]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION****New Delhi, the 14th January, 2011**

S.O. 79(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O 1594(E) dated 06.07.10, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 33 on the stretch of land from Km 60.000 to Km 96.00 (Hazaribagh - Ranchi Section) for Ramgarh bypass in the District Ramgarh in the State of Jharkhand.

And whereas the substance of the said notification has been published for in "Hindustan" dated 07.08.10 and "The Telegraph" dated 13.08.10; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land of NH-33 from Km 60.000 to Km 96.000 (Hazariabag - Ranchi Section) in the State of Jharkhand

Serial number	Name of the district	Name of the Taluk	Name of the village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area		Name of the Land Owner Interested Persons
							In Acre	In Sq. Mtr	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Ranchi	Ranchi	(1) Huhuya	8	Private	Tand III	0.06	242.82	Muglar Kurmi, Balku Kurmi S/o Sahendra Kurmi, Dhandhua Kurmi S/o Jhagar Kurmi
				9	Private	Tand III	0.54	2185.35	Babulal Mahto, Dubraj Mahto, Jeevadhan Mahto, Lakhna Mahto, Mithu Mahto, Ishwar Mahto S/o Gudar Mahto
				45	Private	Tand III	0.04	161.88	"
				27	Private	Dhan II	0.02	80.94	Bakasht
				41	Private	Dhan I	0.08	323.76	Bakasht unknown
				38	Private	Khatiyan Destroyed	0.08	323.76	Suresh Mahto S/o Late Madhu Mahto
				39	Private	Khatiyan Destroyed	0.09	364.23	Bakasht
				113		Khatiyan Destroyed	0.01	40.47	Bakasht
				44	Private	Tand III	0.12	485.63	Sahdev Mahto, Mukhlal, Vishnu Mahto, Dasrath Mahto, Bhuneswar Mahto, Surendra, Mahendra, Sanjay
				47	Private	Tand III	0.07	283.29	"
				75	Private	Tand III	0.04	161.88	"
				46	Private	Tand III	0.06	242.82	Gandori Mahto S/o Bishu Mahto
				50	Private	Parti Gaddha	0.21	849.86	Mana Mahto, Dhaniram Mahto, Tanu Mahto S/o Uday Mahto, Galu Mahto S/o Nandu Mahto, Beena Mahto S/o Ganesh Mahto
				51	Private	Tand III	0.19	768.92	"
				52	Private	Parti Kadim	0.05	202.35	"
				53	Private	Parti Kadim	0.16	647.51	"
				58	Private	Dhan I	0.03	121.41	"
				60	Private	Dhan I	0.16	647.51	"
				62		Dhan I	0.10	404.69	"
				65	Private	Dhan III	0.03	121.41	"
				68	Private	Tand III	0.11	445.16	"
				439	Private	Dhan II	0.37	1497.37	"
				440	Private	Dhan II	0.15	607.04	"
				447	Private	Dhan II	0.51	2063.94	"
				59	Private	Dhan I	0.1	404.69	Wona Mahto S/o Ganesh Mahto
				61	Private	Dhan I	0.12	485.63	"
				64	Private	Dhan II	0.04	161.88	"
				2123		Khatiyan Destroyed	0.05	202.35	"
				72	Private	Dhan II	0.14	566.57	Ratha Mahto, Ranjeet Mahto S/o Kaila Mahto, Jeevial, Devial Mahto S/o Genda Mahto, Roja Mahto, Manbodh Mahto S/o Jeetwahan Mahto
				73	Private	Dhan II	0.12	485.63	"
				96	Private	Dhan II	0.11	445.16	Sitwa Mahto S/o Dasai Mahto
				100	Private	Dhan II	0.02	80.94	"
				286	Private	Dhan II	0.04	161.88	"
				97	Private	Dhan I	0.07	283.29	Ghanshyam, Nandlal S/o Shyamlal, Ramlal S/o Akal Mahto, Aalaso, Bilaso, Niraso, Gado, Phako Devi S/o Badhna, Raadha, Patho S/o Lumba Mahto, Mahendra S/o Lalku, Sainath S/o Tulsi, Nando Mahto, Ghaneswar, Mahesh, Bandhulal S/o Mutuk Dhari, Binod, Sandip, Pradip S/o Sona Ram
				121	Private	Dhan I	0.18	728.45	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				240	Private	Dhan I	0.05	202.35	"
				257	-	Khatiyani Destroyed	0.25	1011.74	"
				451	Private	Dhan I	0.14	566.57	"
				98	Private	Dhan I	0.08	323.76	Shibu Mahto, Kaaru Mahto, Pachhu Mahto S/o Kitak Mahto, Sukhdev S/o Balku Mahto, Kamlesh S/o Arjun Mahto, Mukesh Mahto S/o Chugal Mahto
				99	Private	Dhan II	0.02	80.94	"
				122	Private	Dhan I	0.13	526.10	"
				255	Private	Dhan II	0.02	80.94	"
				256	Private	Dhan II	0.01	40.47	"
				101	Private	Dhan II	0.11	445.16	Binod, Sandip, Pradeep S/o Sonaram Mahto
				102	Private	Dhan II	0.08	323.76	Ishwar Munda, Viseshwar Munda, Kaasinath Munda S/o Ahlad Munda
				108	Private	Dhan II	0.41	1659.25	"
				193	Private	Dhan II	0.02	80.94	Saita Paahan, Girdhar Paahan, Kunda Paahan, Renu Paahan S/o Balram Paahan
				119	Private	Dhan II	0.07	283.29	"
				106	Private	Dhan II	0.24	971.27	Karik Mahto, Mati Mahto, Dasrath Mahto S/o Balku Mahto, Teklal Mahto S/o Jagdish Mahto, Baari Mahto, Mohan Mahto S/o Niman Mahto
				255	Private	Dhan II	0.14	566.57	"
				107	Private	Dhan II	0.34	1375.96	Binod Mahto, Kuldip Mahto S/o Laldhari, Girdhari Mahto, Tishwar Mahto, Dinesh Mahto S/o Balgobind Mahto
				258	Private	Khatiyani Destroyed	0.11	445.16	"
				109	Private	Dhan II	0.34	1375.96	Binod, Sandip, Pradeep S/o Sonaram Mahto, Dhaneswar, Mahesh, Bandhulal S/o Matukdhari Mahto
				110	Private	Dhan II	0.01	40.47	Gopal Bediya, Lakhn Bediya S/o Kartik Bediya, Taaro Devi S/o Mahrang Bediya
				249		Khatiyani Destroyed	0.12	485.63	"
				251	Private	Dhan II	0.07	283.29	"
				120	Private	Dhan I	0.46	1861.59	Nirmal, Birbal, Baaleshwar Mahto, Dhaneswar Mahto, Rajendra, Ramesh, Kamlesh, Kaaleshwar Mahto, Hadulal Mahto, Ramvriksha Mahto, Kaaru, Kajru Mahto, Nemdhari, Meghnath, Ganga Mahto
				239	Private	Dhan II	0.01	40.47	"
				242	Private	Dhan II	0.06	242.82	"
				241	-	Khatiyani Destroyed	0.69	2792.39	Newalal Choudhary, Girdhari Choudhary, Sewalal Choudhary
				316	Private	Dhan II	0.76	3075.68	"
				427	Private	Dhan II	0.28	1133.14	"
				245	Private	Dhan I	0.01	40.47	Ratha Mahto S/o Kaila Mahto, Jeevilal, Dayal Mahto S/o Genda Mahto
				246	Private	Dhan I	0.04	161.88	"
				450	Private	Dhan II	0.04	161.88	"
				248	Private	Dhan II	0.89	3601.78	Jeetman Bediya, Praveen Bediya, Ajit Bediya, Jibu Bediya, Khaira Bediya, Birsai Bediya
				351	Private	Dhan I	0.09	364.23	"
				446	Private	Dhan I	0.45	1821.13	"
				253	Private	Dhan II	0.12	485.63	Jaglal Bediya, Jailal Bediya, Sohal S/o Dasai Bediya, Ranglal S/o Manya Bediya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				254	Private	Dhan II	0.07	283.29	Antwa Bediya, Gangu Bediya S/o Basram Bediya, Rupial Bediya S/o Dhoban Bediya, Pandu Bediya, Chulina Bediya S/o Balwa Bediya, Basant Bediya S/o Tijan Bediya
				260	Private	Dhan II	0.18	728.45	Chanru Sao, Mahavir Sao, Lakhna Sao
				264	Private	Dhan II	0.21	849.86	Pyarelal Munda, Medhu Munda
				273	Private	Dhan II	0.14	566.57	"
				274	Private	Dhan II	0.22	890.33	Puran Munda, Churan, Triveni, Rupdev, Govind, Hussaini, Viseshwar, Aseshwar, Rajesh, Sunil, Shankar, Gopi, Phulchand Munda
				275	Private	Dhan II	0.17	687.98	Pushnath Mahto, Baaleshwar Mahto, Prasadi Mahto, Dhaneswar Mahto, Bhuvneswar Mahto
				346	Private	Dhan I	0.06	242.82	"
				420	Private	Dhan II	0.04	161.88	"
				276	Private	Dhan II	0.06	242.92	Chunnilal Mahto, Jhalu Mahto, Birjan Mahto, Saawna Mahto, Manku Mahto, Chandru Mahto, Tuleshwar Mahto, Tulsu Mahto, Doga Mahto, Hukurnath, Basant Mahto, Upendra Khiru Mahto, Banodhi Mahto, Kailash, Jailal, Madhu Mahto, Dharmnath, Shivcharan Mahto
				277	Private	Dhan II	0.04	161.88	"
				278	Private	Dhan II	0.11	445.16	"
				280	Private	Dhan II	0.12	485.63	"
				281	Private	Dhan I	0.07	283.29	"
				282	Private	Parti Kadim	0.01	40.47	"
				315	Private	Dhan II	0.09	364.23	"
				317	Private	Dhan II	0.02	80.94	"
				422	Private	Dhan II	0.17	687.98	"
				279		Khatiyon Destroyed	0.20	809.39	Mohan Mahto, Pannu Mahto, Rajnath Mahto, Uma Mahto, Gahnu Mahto, Sukar mahto, Suresh Mahto, Prayag Mahto
				344	Private	Dhan I	0.05	202.35	"
				423	Private	Dhan II	0.05	202.35	"
				285	Private	Dhan II	0.01	40.47	Manda Bediya, Bhikmangu Bediya S/o Bhangra Bediya, Budhwa Bediya S/o Ramcharan Bediya
				348	Private	Dhan I	0.03	121.41	"
				350	Private	Dhan I	0.48	1942.53	"
				293	Private	Dhan II	0.19	768.92	Triloki Mahto, Kartik Mahto, Mati Mahto, Dasrath Mahto, Teklal Mahto, Baari Mahto, Mohan Mahto
				336		Khatiyon Destroyed	0.05	202.35	Anita Mahto W/o Ishwarnath Mahto
				352	Private	Dhan I	1.26	5099.15	Ahmad, Akbar, Sumani, Md. Nasim, Maqbul, Abdul Latif, Md. Kurban, Khalil, Mahboob, Muslim, Idris, Jamir, Guljar, Yasin, Mumtaz, Yunus, Haider Md. Kalim, Shaadi Hussain, Muddi, Miyajan, Sadiq, Ibrahim, Haqim, Khajabuddin, Najrul, Ismail, Sufemaan, Mewalal Choudhary, Girdhari Sewalal Choudhary
				353	Private	Dhan II	0.52	2104.41	"
				359	Private	Dhan II	0.01	40.47	Ahmad, Akbar, Sumani Miya, Md. Nasim, Maqbul, Abdul Latif, Md. Kurban, Md. Khalil
				361	Private	Dhan II	0.36	1456.90	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				362	Private	Dhan II	0.37	1497.37	Unknown
				368	Private	Dhan II	0.12	485.63	Juthan Mahto, Bhikhu Mahto S/o Sahju Kurmi, Shivcharan Kurmi, Birsu Kurmi S/o Anahwa Kurmi
				421	Private	Dhan II	0.16	647.51	Unknown
				428	Private	Dhan II	0.42	1699.72	Ramu Pandey, Hardayal Pandey, Sitaram Pandey, Gokhul Pandey, Budhan Pandey S/o Gopal Pandey, Jay Govind Pandey, Charku Pandey S/o Din Dayal Pandey
				429	Private	Dhan II	0.34	1375.96	Khunkhun Munda, Mahavir Munda, Damodar Munda, Tutu Paahan, Jhagru, Suresh, Kaaru, Kajru
				437	Private	Dhan II	0.26	1052.21	Sheikh Pachkodi, Sheikh Mahmadi S/o Sheikh Jainul
				441	Private	Dhan II	0.14	566.57	Kraka Bediya S/o Manbodh Bediya, Jasua, Lahumna, Kisna Bediya S/o Saadhu Bediya
				444	Private	Dhan II	0.18	728.45	Sasinath Mahto, Sayna Mahto, Gunitra Devi W/o Birendra Kr., Neelam Devi W/o Dhaneswar Kr., Aravanti Devi W/o Om Prakash Teju & others, Saami Mahto, Ruplal Lahari, Pokhlal, Maanki, Baldev, Ghimnath Choudhary
				445	Private	Dhan II	0.39	1578.31	"
						Total	18.30	74059.09	
			(2) Kothar	7	Private	Dhan II	0.18	728.45	Srinaram Mahto, Bhukhal Kurmi, Sukhu Kurmi S/o Khetan Kurmi, Schrai Kurmi S/o Bhakur Kurmi
				8	Private	Khatiyani Destroyed	0.16	647.51	Akhla Kurmi S/o Karo Kurmi
				12	Private	Dhan II	0.07	283.29	Lakhiya Kurmi & others S/o Sukar Kurmi, Manua Kurmi & others S/o Late Ahlad Kurmi, Harakh Kurmi S/o Late Sodhan Kurmi Banua Kurmi & others S/o Jhubar Kurmi
				13	Private	Dhan II	0.07	283.29	"
				14	Private	Khatiyani Destroyed	0.08	323.76	Akhla Kurmi S/o Karo Kurmi
				15	Private	Khatiyani	0.01	40.47	Ramnath Mahto, Waasi Mahto,
				21	Private	Dhan II	0.24	971.27	Kaando Kurmi S/o Baanke Ram
				22	Private	Khatiyani Destroyed	0.26	1052.21	Ruplal Kurmi S/o Sukhlal Kurmi
				23	Private	Dhan II	0.18	728.45	Unknown
				24	Private	Dhan II	0.15	607.04	Unknown
				26	Private	Khatiyani Destroyed	0.29	1173.61	Mahangu Kurmi & Others
				71	Private	Dhan II	0.08	323.76	Parna Kurmi, Budhu Kurmi S/o Sanika Kurmi, Sibua Kurmi S/o Somar Kurmi, Udaiyana Kurmi, Latua Kurmi, Gandoriya Kurmi S/o Chamar Kurmi
							0.04	161.88	Suren Mahto S/o Sri Madhu Mahto
				72	Private	Dhan II	0.01	40.47	Parna Kurmi, Budhu Kurmi S/o Sanika Kurmi, Sibua Kurmi S/o Somar Kurmi, Udaiyana Kurmi, Latua Kurmi, Gandoriya Kurmi S/o Chamar Kurmi
				73	Private	Dhan I	0.18	728.45	Girdhari Pandey, Govardhan Pandey, Bharat Pandey, Ram Chandra Pandey S/o Lachhu Pandey
				74	Private	Dhan I	0.15	607.04	"
				76	Private	Dhan I	1.34	5422.91	Bannu Kurmi S/o Sohan Kurmi, Most. Buchiya W/o Guliya Kurmi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				77	Private	Dhan II	0.07	283.29	Pannu Mahto, Khanu Mahto S/o
				78	Private	Dhan II	0.06	242.82	Saadhu Mahto, Kinu Mahto S/o Birju Mahto, Jhagru Mahto S/o Govardhan Mahto, Madha Mahto S/o Raima Mahto, Buddhu Mahto S/o Lakshman Mahto, Shyamlal Mahto S/o Bhukhal Mahto, Basiya Mahto, Masiya Mahto, Tulwa Mahto, Chaita Mahto, MAhita MAhto S/o Jhabu MAhto, Sohrai MAhto, Mohan Mahto S/o KAila Mahto, Bhaju MAhto, Vijay Mahto S/o Rama Mahto
				79	Private	Dhan II	0.14	566.57	"
				80	Private	Dhan II	0.07	283.29	"
				83	Private	Dhan II	0.02	80.94	Kaila Kurmi S/o Sukhran Kurmi, Khaita Kurmi, Jitwahan Kurmi S/o Sahiwar Kurmi
				85	Private	Khatiyon Destroyed	0.32	1295.02	Chaita Chamar S/o Ramdas Chamar
				86	Private	Khatiyon Destroyed	0.32	1295.02	Pannu Mahto, Khanu Mahto S/o Saadhu Mahto, Kinu Mahto S/o Birju Mahto, Jhagru Mahto S/o Govardhan Mahto, Madha Mahto S/o Raima Mahto, Buddhu Mahto S/o Lakshman Mahto, Shyamlal Mahto S/o Bhukhal Mahto, Basiya Mahto, Masiya Mahto, Tulwa Mahto, Chaita Mahto, MAhita MAhto S/o Jhabu MAhto, Sohrai MAhto, Mohan Mahto S/o KAila Mahto, Bhaju MAhto, Vijay Mahto S/o Rama Mahto
				169	Private	Tand II	0.03	121.41	Kaila Kurmi S/o Sukhran Kurmi, Khaita Kurmi, Jitwahan Kurmi S/o Sahiwar Kurmi
				170	Private	Dhan II	0.01	40.47	Unknown
				171	Private	Khatiyon Destroyed	0.90	3642.25	Mani Ohdar Bediya, Bhondu Bediya, S/o Kaila Bediya, Bidesiya Bediya S/o Dhani Bediya
				202	Private	Dhan II	1.32	5341.97	Sunu Mahto S/o Bhagan Mahto
				203	Private	Dhan II	0.08	323.76	"
				208	Private	Dhan I	0.02	80.94	Girdhari Pandey, Govardhan Pandey, Bharat Pandey, Ram Chandra Pandey S/o Lachhu Pandey
				197	Private	Dhan II	0.25	1011.74	Ramdayal Kurmi, Jibu Kurmi S/o Bigan Kurmi Bodhiya Kurmi, Sudhiya Kurmi S/o Siblu Kurmi
				215	Private	Khatiyon Destroyed	0.05	202.35	Unknown
				217	Private	Khatiyon Destroyed	0.17	687.98	Unknown
				218	Private	Khatiyon Destroyed	0.56	2266.29	Unknown
				219	Private	Khatiyon Destroyed	0.56	2266.29	Unknown
				220	Private	Khatiyon Destroyed	0.12	485.63	Unknown
				221	Private	Dhan II	0.88	3561.31	Girdhari Pandey, Govardhan Pandey, Bharat Pandey, Ram Chandra Pandey S/o Lachhu Pandey
				222	Private	Dhan II	0.50	2023.47	"
				223	Private	Dhan II	0.36	1456.90	Hunda Godait Mohan Godait
				224	Private	Dhan III	0.09	364.23	Sunu Mahto S/o Bhagan Mahto

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				225	Private	Khatiyar Destroyed	0.52	2104.41	Sambhunath Goswami, Praful Goswami, Sudhir Kr. Goswami S/o Jotindra Mohan Goswami, Bholanath Goswami, Somto Das Goswami S/o Khagendra Mohan Goswami, Biswanath Goswami, Ganpat Goswami S/o Mahadas Goswami
				226	Private	Khatiyar Destroyed	0.88	3561.31	Vimla Nand Goswami, Sachin Chandra Goswami, Dayanand Goswami S/o Bhagwati Charan Goswami Add:- Ramgarh
				227	Private	Khatiyar Destroyed	0.27	1092.68	"
				229	Private	Dhan II	0.78	3156.62	Pannu Mahto, Khanu Mahto S/o Saadhu Mahto, Kinu Mahto S/o Birju Mahto, Jhagru Mahto S/o Govardhan Mahto, Madha Mahto S/o Raima Mahto, Buddhu Mahto S/o Lakshman Mahto, Shyamlal Mahto S/o Bhukhal Mahto, Basiya Mahto, Masu Mahto, Tulwa Mahto, Chana Mahto, Mahila Mahto S/o Jhabu Mahto, Sohrai Mahto, Mohan Mahto S/o Kaila Mahto, Bhaju Mahto, Vijay Mahto S/o Rama Mahto
				230	Private	Dhan II	0.16	647.51	"
				231	Private	Dhan II	0.43	1740.19	Ranu Kurmi S/o Sohan Kurmi, Most. Buchiya W/o Guliya Kurmi
				234	Private	Dhan I	0.01	40.47	Unknown
				246	Private	Khatiyar Destroyed	0.02	80.94	Vimla Nand Goswami, Sachin Chandra Goswami, Dayanand Goswami S/o Bhagwati Charan Goswami Add:- Ramgarh
				247	Private	Khatiyar Destroyed	0.01	40.47	Sambhunath Goswami, Praful Goswami, Sudhir Kr. Goswami S/o Jotindra Mohan Goswami, Bholanath Goswami, Somto Das Goswami S/o Khagendra Mohan Goswami, Biswanath Goswami, Ganpat Goswami S/o Mahadas Goswami
				325	Private	Khatiyar Destroyed	1.25	5058.68	Unknown
				326	Private	Dhan II	0.99	4006.48	Sudhna Munda, Dinwa Munda S/o Ketar Munda
				327	Private	Dhan I	0.15	607.04	"
				329	Private	Khatiyar Destroyed	0.18	728.45	Unknown
				339	Private	Khatiyar Destroyed	0.13	526.10	Unknown
				343	Private	Khatiyar Destroyed	0.01	40.47	Unknown
				344	Private	Khatiyar Destroyed	0.13	526.10	Mahangu Kurmi, Gondal Kurmi, Gurdayal Kurmi, Shivdayal Kurmi S/o Buka Kurmi
				345	Private	Dhan I	0.12	485.63	Obariya Kurmi S/o Kuran Kurmi, Harna Kurmi, Sokna Kurmi, Sawinath Kurmi, Bhiklal Kurmi S/o Dhaniya Kurmi
				346	Private	Dhan I	0.19	768.92	"
				347	Private	Dhan II	0.34	1375.96	Sonaram Mahto, Bhukhal Kurmi, Sukhu Kurmi S/o Khetan Kurmi, Sohrai Kurmi S/o Bhakur Kurmi
				348	Private	Dhan I	0.20	809.39	"
				349	Private	Dhan I	0.52	2104.41	"
				350	Private	Dhan II	0.05	202.35	"
				351	Private	Dhan II	0.18	728.45	"

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				361	Private	Tand II	1.12	4532.58	Mani Poddar, Bhondu Bediya, S/o Kaila Bediya, Bidesiya Bediya S/o Dhani Bediya
				362	Private	Dhan III	0.19	768.92	"
				363	Private	Dhan III	0.31	1254.55	"
				364	Private	Khatiyar Destroyed	0.36	1456.90	Girdhari Pandey, Govardhan Pandey, Bharat Pandey, Ram Chandra Pandey S/o Lachhu Pandey
				365	Private	Tand III	0.37	1497.37	Mani Poddar, Bhondu Bediya, S/o Kaila Bediya, Bidesiya Bediya S/o Dhani Bediya
				428	Private	Tand II	0.17	687.98	Sonaram Mahto, Bhukhal Kurmi, Sukhu Kurmi S/o Khetan Kurmi, Sohrai Kurmi S/o Bhakur Kurmi
				429	Private	Khatiyar Destroyed	0.26	1052.21	Unknown
				430	Private	Khatiyar Destroyed	0.42	1699.72	Unknown
				464	Private	Dhan III	0.25	1011.74	Mani Poddar, Bhondu Bediya, S/o Kaila Bediya, Bidesiya Bediya S/o Dhani Bediya
				465	Private	Khatiyar Destroyed	0.45	1821.13	Unknown
				466	Private	Khatiyar Destroyed	0.72	2913.80	Unknown
				467	Private	Khatiyar Destroyed	0.19	768.92	Unknown
				468	Private	Dhan II	0.11	445.16	Unknown
				469	Private	Dhan I	0.10	404.69	Unknown
				470	Private	Tand III	0.58	2347.23	Bodhiya Kurmi, Jodhiya Kurmi S/o Shivcharan Kurmi, Ramu Kurmi, Chudikiya Kurmi S/o Sabi Bandhu Kurmi
				471	Private	Dhan II	0.06	242.82	Pannu Mahto, Khanu Mahto S/o Saadhu Mahto, Kinu Mahto S/o Birju Mahto, Jhagru Mahto S/o Govardhan Mahto, Madha Mahto S/o Raima Mahto, Buddhu Mahto S/o Lakshman Mahto, Shyamlal Mahto S/o Bhukhal Mahto, Basiya Mahto, Masiya Mahto, Tulwa Mahto, Chaita Mahto, MAhita MAhto S/o Jhabu MAhto, Sohrai MAhto, Mohan Mahto S/o Kaila Mahto, Bhaju MAhto, Vijay Mahto S/o Rama Mahto
				472	Private	Dhan I	0.15	607.04	"
				473	Private	Dhan I	0.51	2063.94	"
				474	Private	Dhan I	0.25	1011.74	"
				475	Private	Dhan I	0.34	1375.96	Kawariya Kurmi S/o Puran Kurmi, Harna Kurmi, Sikna Kurmi, Shivnath Kurmi, Bhislal Kurmi S/o Dhaniyar Kurmi
				476	Private	Dhan II	0.01	40.47	Pannu Mahto, Khanu Mahto S/o Saadhu Mahto, Kinu Mahto S/o Birju Mahto, Jhagru Mahto S/o Govardhan Mahto, Madha Mahto S/o Raima Mahto, Buddhu Mahto S/o Lakshman Mahto, Shyamlal Mahto S/o Bhukhal Mahto, Basiya Mahto, Masiya Mahto, Tulwa Mahto, Chaita Mahto, MAhita MAhto S/o Jhabu MAhto, Sohrai MAhto, Mohan Mahto S/o Kaila Mahto, Bhaju MAhto, Vijay Mahto S/o Rama Mahto
				478	Private	Tand III	0.01	40.47	"

PART II—SEC. 3(ii)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				491	Private	Dhan I	0.30	1214.08	Ohariya Kurmi S/o Kuran Kurmi, Harna Kurmi, Sokna Kurmi, Sawinath Kurmi, Bhiklal Kurmi S/o Dhaniya Kurmi
				492	Private	Dhan I	0.01	40.47	"
				545	Private	Tand III	1.21	4896.80	Mani Poddar, Bhondu Bediya, S/o Kaila Bediya, Bidesiya Bediya S/o Dhani Bediya
				546	Private	Tand III	0.29	1173.61	Sunu Mahto S/o Bhagan Mahto
				547	Private	Tand II	0.05	202.35	Mahangu Kurmi & Others
				553	Private	Dhan II	0.12	485.63	"
				967	Private	Dhan II	0.02	80.94	"
				974	Private	Khatiyar Destroyed	0.37	1497.37	Ramnath Mahto, Waasi Mahto, Kaasi Mahto S/o Lachhu Mahto, Dayal Mahto, Nirmal Mahto S/o Bhakhu Mahto
				975	Private	Khatiyar Destroyed	0.26	1052.21	Bhikmanga Munda S/o Setar Munda
				976	Private	Dhan I	0.22	890.33	Akhla Kurmi S/o Karu Kurmi
				977	Private	Dhan I	0.24	971.27	Lakhiya Kurmi, Nandu Kurmi, Jagannath Kurmi S/o Sukar Kurmi, Mahwa Kurmi, Jivadhan Kurmi, Chintaman Kurmi S/o Ahlad Kurmi, Harak Kurmi S/o Sodhan Kurmi, Lachhuar Kurmi, Jaglal Kurmi S/o Bhuar Kurmi
				978	Private	Dhan I	0.18	728.45	"
				979	Private	Dhan II	0.21	849.86	Akhla Kurmi S/o Karu Kurmi
				980	Private	Dhan II	0.30	1214.08	Sonaram Mahto, Bhukhal Kurmi, Sukhu Kurmi S/o Khetan Kurmi, Sohrai Kurmi S/o Bhakur Kurmi
						Total	28.62	115823.55	

[F. No. NHAI/11013/01/LA/2010/Jhar./2 Vill.]

S. NARENDRA, Director